



भारत का राजपत्र The Gazette of India


असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 169]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 20, 1979/चैत्र 30, 1901

No. 169]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 20, 1979/CHAITRA 30, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली: 20 अप्रैल, 1979

क्र० आ० 213(अ) पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने सन् 1977 की निर्वाचन अर्जी सं० 1 में अपने तारीख 31 मई, 1978 के आदेश द्वारा निर्वाचन आयोग के तारीख 22 मार्च, 1977 के उस आदेश को अपास्त कर दिया था, जिसके द्वारा आयोग ने 13-फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तारीख 16 मार्च, 1977 को हुए मूल मतदान को शून्य घोषित कर दिया था और उस निर्वाचन-क्षेत्र में तारीख 26 अप्रैल, 1977 को पुनः मतदान कराने का निर्देश दिया था ;

उक्त उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में तारीख 16 मार्च, 1977 को हुए मूल मतदान के क्रम में ही केवल—

(1) फाजिलका सभा खण्ड ;

(2) गुरु हरसहाय सभा खण्ड में मतदान केन्द्र सं० 8-छंगा राय हियर ; तथा

(3) वे विशिष्ट मतदाता जो तारीख 16 मार्च, 1977 को हुए मूल मतदान में अपने मत डाक मतपत्र द्वारा देने के लिए हफ्तवार थे ;

के बारे में पुनः मतदान कराने और उपर्युक्त पुनः मतदान के परिणाम की रिपोर्ट उच्च न्यायालय को उसके आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के अन्दर देने का निर्देश भी दिया था ;

और उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 21 मार्च, 1979 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई सन् 1978 की दो क्रम सिविल अपीलों सं० 1028 और 1176 (एन० सी० ई०) को खारिज कर दिया था और पठने तारीख 30 जून, 1978 को दिए गए अपने स्टे आदेश को शून्य कर दिया था और निर्वाचन आयोग को उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख अर्थात् 21 मार्च, 1979 से तीन महीने की अवधि के अन्दर पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के निर्देशों को कार्यान्वित करने का निर्देश भी दिया था ;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय तथा पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों के अनुसरण में और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30, 56, और 64-क के साथ पठित संविधान अनुच्छेद 324 द्वारा प्रवृत्त तथा उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाला अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए :—

(क) तारीख 13 मई, 1979 (रविवार) को ऐसी तारीख के रूप में जिमको 13-फिरोजपुर संसदीय-निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट फाजिलका सभा निर्वाचन-क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों और गुरु हरसहाय सभा निर्वाचन-क्षेत्र के मतदान केन्द्र सं० 8-छंगा राय हियर में 7 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के समय के दौरान पुनः मतदान कराया जाएगा ; और

(ख) तारीख 23 अप्रैल, 1979 (सोमवार) को ऐसी तारीख के रूप में जिस तारीख तक पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार डाक मत-पत्र द्वारा मत देने के हकदार सभी मतदाताओं को रिटनिंग आफिसर द्वारा डाक मत-पत्र भेज दिए जाएंगे,

एतद्वारा नियत करता है।

भवदीय,

बी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 1979

S.O. 213(E).—Whereas by its order dated the 31st May, 1978 in Election Petition No. 1 of 1977 the High Court of Punjab and Haryana, had set aside the order dated the 22nd March, 1977 of the Election Commission whereby the Commission had declared the original poll taken in 13-Firozpur Parliamentary Constituency on the 16th March, 1977 as void and had directed a repoll in that Constituency on the 26th April, 1977 ;

Whereas the said High Court further directed the Election Commission to hold repoll, in continuation of the original poll taken in the said Parliamentary Constituency on the 16th March, 1977, only in respect of :—

- (i) Fazilka assembly segment;
- (ii) Polling station No. 8-Chhanga Rai Hithar in Guru Har Sahai assembly segment; and
- (iii) those specific voters who were entitled to cast their votes through postal ballot papers in the original poll taken on the 16th March, 1977 ;

and to report the result of the above re-poll to the High Court within a period of 3 months from the date of its order ;

And whereas by its Order dated the 21st March, 1979 the Supreme Court had dismissed the two cross Civil Appeals Nos. 1028 and 1176 (NCE) of 1978 filed against the said Order of the High Court and vacated its stay Order earlier made on the 30th June, 1978 and had further directed the Election Commission to carry out the directions of the High Court of Punjab and Haryana within a period of 3 months from the date of Order of the Supreme Court; i.e. the 21st March, 1979;

Now, therefore, the Election Commission, in pursuance of the said directions of the Supreme Court and of the High Court of Punjab and Haryana and in exercise of the powers conferred by article 324 of the Constitution read with sections 30, 56 and 64A of the Representation of the People Act, 1951 and all other powers enabling it in this behalf hereby appoints—

- (a) the 13th May, 1979 (Sunday), as the date on which the repoll shall be taken in all the polling stations in the Fazilka assembly constituency and polling station No. 8-Chhanga Rai Hithar in Guru Har Sahai assembly constituency, comprised in 13-Firozpur Parliamentary Constituency between 7.0 a.m. and 3.00 p.m. and
- (b) the 23rd April, 1979 (Monday), as the date by which the postal ballot papers shall be sent by the Returning Officer to all the voters entitled to vote through postal ballot in terms of the order of the High Court of Punjab and Haryana.

[No. 493/PB-HP/79]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.